

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—आषाढ़ 10, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला बालाघाट, मुरैना, मंडला, टीकमगढ़, खरगोन एवं सतना के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
				पटवारी हल्का नं०	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का नं०	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
बालाघाट										
मूल अधिसूचना क्र189, दिनांक 23.4.2016 में निम्नानुसार पटवारी हल्कों की फसलों में संशोधन किया जाता है ।										
	कटंगी	कटंगी	1	कोडमी	धान सिंचित					
			2	जमुनिया	धान सिंचित					
			10	टेकाडी	धान सिंचित					
			11	खैरलांजी	धान सिंचित					
			14	देवठाना	धान सिंचित					
			15	बासी	धान सिंचित					
			18	कालीमाटी	धान सिंचित					
			19	लिंगापोनार	धान सिंचित					
			20	टेकाडी	धान सिंचित					
			21	महदुली	धान सिंचित					
			22	मानेगांव	धान सिंचित					
			23	चौखण्डी	धान सिंचित					
			24	चिकमारा	धान सिंचित					
			30	खजरी		धान असिंचित				
			33	नंदलेसरा	धान सिंचित					
			34	कलगांव	धान सिंचित					
			36	सांवगी	धान सिंचित					
			37	अगासी	धान सिंचित	धान असिंचित				
			42	टेकाडी भ	धान सिंचित	धान असिंचित				
			44	वरुड	धान सिंचित					
	किरनापुर	किरनापुर	58	मुण्डेसरा	धान सिंचित	धान असिंचित				
		माटे	26	निमदेवाडा	धान सिंचित					
	खैरलांजी	आरंभा	46	बकोडी	धान सिंचित	धान असिंचित				
			49	बिटोडी		धान असिंचित				
		खैरलांजी	27	खैरलांजी	धान सिंचित	धान असिंचित				
			33	शंकरपिपरिया	धान सिंचित	धान असिंचित				
			39	खैरी	धान सिंचित	धान असिंचित				
		सालेबडी	12	मोहगांवघाट		धान असिंचित				
			15	दुईयापार	धान सिंचित					
			17	झिरिया		धान असिंचित				
			18	भजियादण्ड	धान सिंचित	धान असिंचित				
			19	अमई	धान सिंचित					

जिला	तहसील	ग्राम	विकास	प्रकार	अवस्था	अवस्था	अवस्था	अवस्था	अवस्था
		00003	कुडवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	कन्हडगाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	महकेवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	कोसुम्बा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	सुकली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	धाकाहटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	सादाबोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	बोलडोंगरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	मंवेगाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	नादी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	परसवाडाघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	परसवाडा								
	उकवा								
		00050	गुदना		धानअसिंचित	-	-	-	-
	परसवाडा								
		00008	भीकेवाडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	चंदना		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	खरपडिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	परसवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	लिंगा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	बघोली		धानअसिंचित	-	-	-	-
	बानाघाट								
	चांगोटोला								
		00002	सोनखार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	बटुआ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	चांगोटोला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	हट्टा								
		00065	देवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	खुरसाडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	पेण्डरई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	बिरसा								
	दमोह								
		00036	रमगढी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00037	सालेवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00038	मानेगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00039	पिपरटोला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	अंजगरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	सलघट		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	भूतना		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	देवगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	दमोह		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	सुन्दरवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	माटे		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	रेलवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	खरसीपार		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	सिंगनपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	गिडोरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	जमुनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	कनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00053	पंडरिया		धानअसिधित	-	-	-	-
		00054	अधानकपुर		धानअसिधित	-	-	-	-
		00055	झामुल		धानअसिधित	-	-	-	-
		00056	कधनारी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00057	बहुराभाट	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00058	सालटेकरी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00059	रघोली		धानअसिधित	-	-	-	-
		00060	लालपुर		धानअसिधित	-	-	-	-
			बिरसा						
		00001	गुदमा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00002	समनापुर		धानअसिधित	-	-	-	-
		00003	भीमलाट		धानअसिधित	-	-	-	-
		00004	जानपुर		धानअसिधित	-	-	-	-
		00005	भंडारपुर		धानअसिधित	-	-	-	-
		00006	बाकीगुडा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00007	निक्कुम		धानअसिधित	-	-	-	-
		00008	बलगाव		धानअसिधित	-	-	-	-
		00009	जैरासी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00010	कटगी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00011	बाहकल		धानअसिधित	-	-	-	-
		00012	पल्हेरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00013	टिंगीपुर	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00014	नेवरगाव	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00015	मोहगाव	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00016	पौनी	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00017	करमसरा	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00018	बोरखेडा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00019	खुसीपार		धानअसिधित	-	-	-	-
		00020	भिमजोरी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00021	सायल	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00022	मंडई		धानअसिधित	-	-	-	-
		00023	हराभाट		धानअसिधित	-	-	-	-
		00024	देवगाव		धानअसिधित	-	-	-	-
		00025	छपला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00026	जगला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00027	डोगरिया		धानअसिधित	-	-	-	-
		00028	बोजाटोला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00029	गोवारी	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00030	सुरवाही		धानअसिधित	-	-	-	-
		00031	बिरसा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00032	कंडाटोला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00033	करादा बहरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00034	चिघगाव	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
		00035	बिठली	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	-	-
			बेहर						
			गढी						
		00002	हटटा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00003	आमगहन		धानअसिधित	-	-	-	-
		00004	परसामड		धानअसिधित	-	-	-	-
		00007	बोदा मा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00008	पोण्डी		धानअसिधित	-	-	-	-

	देहर	00022	देहर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	बल्लभ	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	भण्डेरी								
		00038	करवाही	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	तहगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	पाधरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	नछी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	तानरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	साजी								
	भोनगाव								
		00008	खजरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	बालेगाव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	सिहारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	साजी								
		00060	साजी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	खुसीटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	धानेगाव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	साइरा								
		00028	कटगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	घंसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	बहेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	अमेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	तालबरा								
	कमकी								
		00063	मोहगाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	डोगरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	खनरिया								
		00045	नेतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	katngjhari		धानअसिंचित	-	-	-	-
	वारासिवनी								
	बुदबुदा								
		00009	नरोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	सावगी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	सारडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	मेढकी								
		00054	भाण्डी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	वारासिवनी								
		00020	मुरझड	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	खापा	धानसिंचित	-	-	-	-	-



			27	चापक					बाजरा
			28	भदावली					बाजरा
			29	कीचौल					बाजरा
			30	अरौन					बाजरा
			31	सिकहरा					बाजरा
			32	डोंडरी					बाजरा
			33	रजौधा			तुअर		बाजरा
			34	साठो					बाजरा
			35	खड़िया पोरसा					बाजरा
			36	लालपुरा					बाजरा
			37	करसण्डा					बाजरा
			38	खेरली पोरसा					बाजरा
अम्बाह	1 अम्बाह		9	रिठौना					बाजरा
			10	ककरारी					बाजरा
			11	भडौली					बाजरा
			12	अम्बाह					बाजरा
			13	बिचौला					बाजरा
			14	बडफरा					बाजरा
			15	दोहरा					बाजरा
			16	चांदका पुरा					बाजरा
			17	बरेह					बाजरा
			39	रूपहटी					बाजरा
			40	नावली					बाजरा
			41	थरा					बाजरा
			42	जलका नगरा					बाजरा
			43	भौनपुरा					बाजरा
			44	सुनावली					बाजरा
			45	कुकथरी					बाजरा
			46	सिंगपुरा					बाजरा
			47	किरियच					बाजरा
			48	तरेनी					बाजरा
			49	धनसुला					बाजरा
अम्बाह	2 दिमनी		1	अरौली					बाजरा
			2	मलबसई					बाजरा
			3	बीलपुर					बाजरा
			4	कुथियाना					बाजरा
			5	जोहा					बाजरा
			6	डण्डौली					बाजरा
			7	खिरेटा					बाजरा
			8	गूझ					बाजरा
			18	रानपुर					बाजरा
			19	गोठ					बाजरा
			20	कचनौधा					बाजरा
			21	श्यामपुर खुर्द					बाजरा
			22	ऐसाह					बाजरा
			23	लहर					बाजरा
			24	दिमनी					बाजरा
			25	चांदपुर					बाजरा
			26	रिठौरा का पुरा					बाजरा

रिठौरा

		27	बिरहरुआ				बाजरा
		28	कमतरी				बाजरा
अम्बाह	3 सिहोनिया	29	गोपी				बाजरा
		30	खडियाट्टार				बाजरा
		31	महुरी				बाजरा
		32	लल्लूबसई				बाजरा
		33	सिहोनिया				बाजरा
		34	पुराबसकला				बाजरा
		35	बाबड़ीपुरा				बाजरा
		36	खडियाबेहड				बाजरा
		37	सिकरोड़ी				बाजरा
		38	तुतवास				बाजरा
		50	पुराबसखुर्द				बाजरा
		51	इकहरा				बाजरा
		52	मनपुररजपूती				बाजरा
		53	कोलुआ				बाजरा
		54	भिडौसा				बाजरा
		55	लेपा				बाजरा
		56	सांगोली				बाजरा
मुरैना	1-मुगावली	1	कैथरी				बाजरा
		2	जारह				बाजरा
		3	मसूदपुर				बाजरा
		4	भानपुर				बाजरा
		5	पिपरई				बाजरा
		6	हेतमपुर				बाजरा
		7	बंधा				बाजरा
		20	पीपरखेड़ा				बाजरा
		21	पचोखरा				बाजरा
		26	हिगोनाकला				बाजरा
		27	जतावर				बाजरा
		28	कैथोदा				बाजरा
		29	हॉसई मेवदा				बाजरा
		30	मुगावली				बाजरा
मुरैना	2 मृगपुरा	6	नायकपुरा				बाजरा
		7	हुसेनपुर				बाजरा
		10	मैथाना				बाजरा
		11	गडौरा				बाजरा
		12	रिठोराखुर्द				बाजरा
		13	जखौना				बाजरा
		14	तिछौला			तुअर	बाजरा
		15	गोसपुर				बाजरा
		16	मुगपुरा				बाजरा
		17	पलपुरा				बाजरा
		18	पिडावली				बाजरा
		19	बिडवाकवारी				बाजरा
		22	दीखतपुरा				बाजरा
मुरैना	3 मुरैना	23	सिकरोदा				बाजरा
		24	देवरी				बाजरा
		25	हिनौनाखुर्द				बाजरा



			31	मुरैनागांव					बाजरा
			32	जौराखुर्द					बाजरा
			33	जौरी					बाजरा
			34	निवी					बाजरा
			35	अतरसुमा					बाजरा
			36	लालौर					बाजरा
			37	बड़ौखर					बाजरा
			38	छोदा					बाजरा
			39	डोमपुरा					बाजरा
			45	मुड़ियाखेड़ा					बाजरा
			46	इमलिया					बाजरा
मुरैना	4. जीगनी		40	भौंडेरी					बाजरा
			41	जगतपुर					बाजरा
			42	किशनपुर					बाजरा
			43	डोंगरपुरकिरार					बाजरा
			44	जेबराखेड़ा					बाजरा
			47	गंजरामपुर					बाजरा
			49	जीगनी					बाजरा
			50	मीरपुर					बाजरा
			51	खबरौली					बाजरा
			53	खेड़ाभेवदा			तुअर		बाजरा
			54	रसीलपुर					बाजरा
			68	काजीबसई					बाजरा
			69	नगरा					बाजरा
मुरैना	5 नावलीबड़ागांव		52	बरेथा					बाजरा
			55	नावलीबड़ागांव					बाजरा
			56	करारी					बाजरा
			57	जतवारकापुरा					बाजरा
			58	मिस्थान					बाजरा
			59	घुरधान					बाजरा
			60	सिरमिती					बाजरा
			61	डोंगरपुरलोधा					बाजरा
			62	छिछावली					बाजरा
			63	दतहरा					बाजरा
			64	बिजौलीपुरा					बाजरा
			65	अजनोधा			तुअर		बाजरा
			66	सुरजनपुर					बाजरा
			67	माताबसैया					बाजरा
मुरैना	6 बमरौली		70	कोतवाल					बाजरा
			71	नाका					बाजरा
			72	पिलुआ					बाजरा
			73	विचौला					बाजरा
			74	मदनबसई					बाजरा
			75	गिरगौनी					बाजरा
			102	बमरौली					बाजरा
			103	सांगोली					बाजरा
			104	परीक्षा					बाजरा
			105	अरदौनी					बाजरा

		106	भेसोरा				बाजरा
		107	पद्मावली				बाजरा
मुरैना	7 नूराबाद	76	लमनपुरा				
		77	जारौनी				बाजरा
		78	करुआ				बाजरा
		79	चुरहेला				बाजरा
		80	बरेड़ा				
		81	जयनगर				बाजरा
		82	जररुआ				बाजरा
		83	लोहगढ़				बाजरा
		84	दोरांवली				बाजरा
		85	बमूरबसई				
		86	धनेला				बाजरा
		91	नूराबाद				बाजरा
		92	नाऊपुरा				बाजरा
मुरैना	8 बामौर	87	पहाड़ी				
		88	जखौदा				
		89	बामौरखुर्द	धानसिंचित			
		90	सेवा				बाजरा
		92	खरगपुर				
		94	गुलेन्द्रा				
		95	मड़राई				बाजरा
		96	महटौली				बाजरा
		98	पारौली				
		99	रान्सू				
		100	खिरावली				
		101	रन्चौली				
मुरैना	9 रिठौरकलां	97	करौला				
		108	मितावली	धानसिंचित			
		109	सिलगिला	धानसिंचित			
		110	नौगांव				
		111	रिठौराकलां	धानसिंचित		तुअर	बाजरा
		112	ऐंती				बाजरा
		113	गड़ाजर				बाजरा
		114	पिपरसेवा				बाजरा
		115	उरहाना				बाजरा
		116	टीकरी				
		117	बड़वारी				
जौरा	1 भरां	1	बरेंड				बाजरा
		2	सिंगरोली				बाजरा
		3	चिन्नी चम्बल				बाजरा
		4	पचोखरा				बाजरा
		5	तिन्दौखर				बाजरा
		6	वृजगढ़ी				बाजरा
		7	हुसेनपुर				बाजरा
		8	खरली				बाजरा
		9	खेड़ा हुसेनपुर				बाजरा
		10	कोटरा				बाजरा
		11	कोल्हडाडा				बाजरा

		12	रजोधा			बाजरा
		13	ककरौली			बाजरा
		14	बंधपुरा			बाजरा
		15	भर्रा			बाजरा
		23	रन्धोरपुरा			बाजरा
जौरा	2- चिन्नी करैरा	22	खिडौरा			बाजरा
		24	छिनवारा			बाजरा
		25	तिलावली			बाजरा
		26	उत्तमपुरा			बाजरा
		27	ताजपुर			बाजरा
		28	सुखपुरा			बाजरा
		29	खरिका			बाजरा
		30	सासेनी			बाजरा
		31	खिडौरा			बाजरा
		32	सेंधरी			बाजरा
		33	स्यारु			बाजरा
		34	चिन्नी करैरा			बाजरा
		35	बदरपुरा			बाजरा
		36	जेतपुर			बाजरा
		37	बुढावली			बाजरा
		39	रसोधना			बाजरा
जौरा	3- बधेल	16	सुजानगढ़ी			बाजरा
		17	चचेड़ी			
		18	मददीपुरा			बाजरा
		19	दुड़ीला			बाजरा
		20	अहरोली			बाजरा
		21	खुटियानीहार			बाजरा
		38	मोहना			बाजरा
		40	बधेल			बाजरा
		41	जलालपुर			बाजरा
		42	बिसरौनी			बाजरा
		43	कैमारा			बाजरा
		44	जौनारा			बाजरा
		45	सिकरोदा	धानसिंचित		
		46	गैपरा			बाजरा
		47	अगरोता			बाजरा
		48	नरहोली			बाजरा
जौरा	4- जौरा	51	छडेह			
		52	मजरा			बाजरा
		53	बुरावली			बाजरा
		54	नरहेला			बाजरा
		55	जौरा			
		56	साँकरा			बाजरा
		57	बधोरा खुर्द			बाजरा
		58	बधोरा कलां			बाजरा
		59	रुनीपुरा			बाजरा
		60	निधान			
		61	मई			

(11)

		62	अलापुर				बाजरा
		63	गुड़ाआसन				बाजरा
		64	धमकन				बाजरा
		65	मुदावली				
		66	थरा				बाजरा
		67	डोगरपुर				बाजरा
		68	बिलगांव चौधरी				बाजरा
जौरा	5- बागचीनी	69	मुद्रावजा			तुअर	बाजरा
		70	सकतपुर				बाजरा
		71	गांगोलीहार				बाजरा
		72	चचिहा				बाजरा
		73	विसगपुर				बाजरा
		74	छेरा			तुअर	बाजरा
		75	उरहेरा				बाजरा
		76	इमलिया				बाजरा
		77	जाफरावाद				बाजरा
		78	उरहेडी				बाजरा
		79	कुन्हेरी			तुअर	बाजरा
		80	इड़वासी			तुअर	बाजरा
		81	बरोली				बाजरा
		82	घर्रा				बाजरा
		83	अरहेला				बाजरा
		84	नन्दगांगोली				बाजरा
		85	मोघनाजवाहर				बाजरा
		86	मोगनीसामन्त				बाजरा
		87	बिण्डवादेवगढ़				बाजरा
		91	बागचीनी			तुअर	बाजरा
जौरा	6- गलेथा	88	नन्दपुरा			तुअर	बाजरा
		89	गुढाचम्बल				बाजरा
		90	बरहाना				बाजरा
		92	भैसरोली			तुअर	बाजरा
		93	गलेथा			तुअर	बाजरा
		94	खाडोली				बाजरा
		95	सिहोरी				बाजरा
		96	नहरावली				बाजरा
		97	नाहरदौकी				
		98	उम्मेदगढ़बाँसी				बाजरा
		99	सौटा				बाजरा
		100	चेना				बाजरा
		101	देवरी			तुअर	बाजरा
		102	सहराना				बाजरा
		103	खनैता				
		104	महाराजपुर				
		105	सिलायथा				
जौरा	7- सुमावली	106	घुरैयाबसई			तुअर	बाजरा
		107	पहावली			तुअर	बाजरा
		108	अटा				बाजरा
		109	जरैना				बाजरा

			110	सहदपुर				बाजरा
			111	नितहरा				बाजरा
			112	दुलहनी				बाजरा
			113	बडौना				बाजरा
			114	हथरिया			तुअर	बाजरा
			115	गणेशपुरा				बाजरा
			116	सुमावली			तुअर	बाजरा
			117	टिकटौलीगूजर			तुअर	बाजरा
			118	मैनाबसई			तुअर	बाजरा
			119	लोहाबसई				बाजरा
			120	बिरुंगा				बाजरा
			121	इटावली				बाजरा
			122	सिधौरा				बाजरा
जौरा	8- पहाड़गढ़		49	परसोटा				बाजरा
			50	घाडौर				बाजरा
			123	बिचपुरी				
			124	झौड़				
			125	कुँअरपुर				बाजरा
			126	टिकटौलीदूमदार				बाजरा
			127	बारा				
			128	नीचलीबहराई				बाजरा
			129	पहाड़गढ़				बाजरा
			130	धूरकूड़ा				बाजरा
			131	कहारपुरा				बाजरा
			132	मानपुर				बाजरा
			133	कन्हार				बाजरा
			134	जड़ेरु				बाजरा
			135	धौधा			सोयाबीन	
			136	गहतौली				
कैलारस	1- सुजर्मा		1	माधोगढ़				बाजरा
			2	बड़मन				बाजरा
			3	खेड़ाकला				बाजरा
			4	खेड़ातोर				बाजरा
			5	रजपुरा जागीर				बाजरा
			6	सेमई				बाजरा
			7	कुटरावली				बाजरा
			8	ऐंचोली				बाजरा
			9	नैपरी				बाजरा
			10	हटीपुरा				बाजरा
			11	पचेखा				बाजरा
			12	जरैना मानगढ़				बाजरा
			13	किरावली जदीद				बाजरा
			14	किरायच				बाजरा
			15	गुलपुरा				
			16	उचांड				बाजरा
			17	महेबा				बाजरा
			18	इटौरा				बाजरा

		19	बधरेंटा					बाजरा
		20	सहदपुर					बाजरा
		36	सुजर्मा					बाजरा
कैलारस	कैलारस	38	निरारा					
		39	रिठौनियां					
		40	भिलसैयां					बाजरा
		41	आंतरी					
		42	कैलारस					बाजरा
		43	डोंगरपुर मानगढ़					
		44	कुरौली					बाजरा
		45	चमरगवा					बाजरा
		46	लाभकरन					बाजरा
		47	बिलगांव क्वारी					बाजरा
		48	तोरिका					बाजरा
		49	दीपेरा					बाजरा
		50	शेखपुर					बाजरा
		51	बघरोली					बाजरा
		53	रीझोनी					बाजरा
		54	बस्तोली					बाजरा
		55	ब्रहम बाजना					बाजरा
		56	माली बाजना					बाजरा
		57	अरौंदा					बाजरा
		58	डमेजर					बाजरा
		63	बूढसिरथरा					बाजरा
		64	गस्तोली					बाजरा
कैलारस	मामचौन	21	चौकी					बाजरा
		22	नगावली					बाजरा
		23	मामचौन			तुअर		बाजरा
		24	कट्टोली					बाजरा
		25	खिरी					बाजरा
		26	गोल्हारी			तुअर		बाजरा
		27	देवरी					बाजरा
		28	डुमरावली					बाजरा
		29	बहरार जागीर					बाजरा
		30	पनिहारी					बाजरा
		31	पलखिनी					बाजरा
		32	सगोरिया					
		33	बाल्हेरा जागीर					बाजरा
		34	सिंगाचौली					बाजरा
		35	लहरा					बाजरा
		37	तिलौजरी					बाजरा
		52	कोढेरा					
		59	किसरोली					बाजरा
		60	पिपरोनिया					
		61	कोटसिरथरा					बाजरा
		62	ठाटीपुरा					बाजरा

		65	किरावली मानगढ़					
सबलगढ़	टेटरा	1	बरोठा				तुअर	बाजरा
		2	कैमराकलां				तुअर	बाजरा
		3	कैमाराखुर्द				तुअर	बाजरा
		4	गोन्दोली				तुअर	बाजरा
		5	बाबड़ीपुरा				तुअर	बाजरा
		6	खिरका					बाजरा
		7	जवाहरगढ़					बाजरा
		8	अनघोरा					बाजरा
		9	टेटरा				तुअर	बाजरा
		10	जाटोली				तुअर	बाजरा
		11	जाबरोल					बाजरा
		35	पघेर					बाजरा
सबलगढ़	मांगरोल	12	अटार				तुअर	बाजरा
		13	झिगवार				तुअर	बाजरा
		14	खेड़ाझिगवार				तुअर	बाजरा
		15	रहूकागांव				तुअर	बाजरा
		16	बनवारा				तुअर	बाजरा
		17	नौरावलीखैरोन				तुअर	बाजरा
		28	राजाकातोर					
		29	बत्तोखर					बाजरा
		30	रामगढ़					बाजरा
		31	बाबड़ी					बाजरा
		32	मांगरोल				तुअर	बाजरा
		33	कीरतपुर					बाजरा
		34	रामपहाड़ी					बाजरा
		36	खोह					बाजरा
		37	गुलालई					बाजरा
		38	पूछरी					बाजरा
		39	कैमारी					बाजरा
सबलगढ़	झुण्डपुरा	18	खैरोन				तुअर	बाजरा
		20	झुण्डपुरा				तुअर	बाजरा
		21	कढ़ावना					बाजरा
		22	हीरापुर					बाजरा
		23	गुरैमा					बाजरा
		24	किशोरगढ़					बाजरा
		25	रुपाकातोर					
		26	सन्तोषपुर					
		27	जमनीपुरा					बाजरा
		42	खेरला					बाजरा
		43	रामपुरगिर्द					बाजरा
		44	शिवलालपुरा					
		45	रतनपुर					
		46	कटघर					बाजरा
		47	चनोटी					बाजरा
सबलगढ़	सबलगढ़	40	पिपरधान				तुअर	बाजरा
		41	बेरईगिर्द				तुअर	बाजरा
		48	कुल्होली				तुअर	बाजरा

		49	लकेंझरा					बाजरा
		50	बकसपुर					बाजरा
		51	पासौनकलां					बाजरा
		52	पहाड़ी					बाजरा
		53	रन्हेरा					बाजरा
		54	सबलगढ़				तुअर	बाजरा
		55	टोंगा				तुअर	बाजरा
		56	कुतधान					
सबलगढ़	रामपुरकलां	57	जलालगढ़					बाजरा
		58	सलमपुर					
		59	सिमरोदा किरार					बाजरा
		60	धरसोला					बाजरा
		61	सराय					बाजरा
		62	रुनधानखालसा					बाजरा
		63	सेमना					बाजरा
		64	सालई					बाजरा
		65	रामपुरकलां				तुअर	बाजरा
		66	बामसौली				तुअर	बाजरा
		67	गौबरा				तुअर	बाजरा
		68	बेरखेड़ा					बाजरा



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मंडला	घुघरी									
	घुघरी									
			00039	खजरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	जुनवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	लाटो		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	खम्हरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	डोंगरमण्डला		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00044	राम्हेपुर		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00045	बिलगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	गजराज		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	छत्रपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	बनेहरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	नाहरवेली		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	घुघरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	टिकरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	मांगा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	छिवलाटोला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	बम्हनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	देवहारा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00056	पाण्डकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	गरियापाण्ड		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	खोडाखुदरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	बरवानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	सहजर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00062	बनिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00063	सुरहली		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00064	चोबा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00065	दुलादर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00066	कुसमी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	भैंसवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00068	कचनारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00069	सलवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00070	चुरिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00071	सिधनपुरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00072	परसवाह		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00073	घोरेघाट		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00074	तबलपानी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00075	इंडादेह		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00076	कुटीददरगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00077	किसली		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00078	ढंको		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00079	पाटन		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00080	उमरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00081	खोडाखुदरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00082	इमलीटोला ऊर्फ लडिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00083	लाफन		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00084	नेझर		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
		मोहगाँव								
			00001	कौआडोंगरी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	

		00002	बिलगढा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	सिंगारपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	उमरिया रैयत	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	धनगांव	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	बडझर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	चुभावल	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	खोसी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00009	खाल्हेगिठोरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	उमरडीह ऊर्फ पडादर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	चाबी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	अंडिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	खैरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	करेगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	झुरगी पौडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	ठेभा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	गिठार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	गिठार मलपहरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	मोहगांव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	मोहगांव रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	मुंगवानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00022	मलवाथर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	कम्हरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00024	बोडासिल्ली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	पीपरदरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	रैगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	देवगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	सुडगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	मुनु	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	कडुपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	मचला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	हराटीकर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	निधानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	बिलगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	चंदबारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	चौगान	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	पलेहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
	नारा							
		नारायणगंज						
		00034	सिंगोधा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	मानेगांव	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	घोटखेडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	मोहगांव ऊर्फ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	देवहार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	सिकोसी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	कडामेली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	पडरिया ऊर्फ नारायणगंज	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	खैरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	कम्हा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	मेली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	चिरईडांगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	कोडरा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	बम्हनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	भावल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	गुजरसानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मझगांव	धानअसिचित	-	-	-	-

		00057	मादोगढ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	कोडरा ऊर्फ चौकी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	कोबरीकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	सलैया	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बीजाडाडी</b>							
		00004	समनापुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	खन्हेरखेडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	मगरधा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	दुढवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	बारगदा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	धनवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	घरगाव माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	पाठाचौरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	लावरमुडिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	विजयपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	रमतिला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बेलखेडी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	टिकरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पिपरिया खुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	बरवाही	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बरोची	धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	लालपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>निवास</b>							
	<b>निवास</b>							
		00001	पोनिया माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	लहसर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	चरगांव कला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	बिलनगरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	शैसवाही माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	छिंदगाव	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	भौडी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00008	पौडी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	कंटगी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	महरासिवनी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00011	सरसवाही	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	पिपरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	सिंगपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	बस्तरी जर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	पायलीबाहुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	जंगलिया रैयत	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	मोहपानी जर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	मेढी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	खेरानी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	झुरकी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	मनेरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	पौडी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00023	कोहानी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00024	गडरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	भलवारा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	हाथीतारा माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	सतपहरी माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	गुंदलई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	हरीसिधौरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	धानमगांव	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	भीखमपुर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	सुखरी संगामपुर	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	भानपुरबिसौरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	अमगांव	धानअसिचित	-	-	-	-

		00036	निवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	आमाडोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	पाठादेवगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	कटंगसिवनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	मोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	बम्हनी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	हिरनाछपर माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00043	कोहका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	झिझरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	जिलेहटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मझगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	पददीकोना माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	जवेधा माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00049	मसूरघघरी माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	<b>बबलिया</b>								
		00050	डोभी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	सुखराम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	बनार		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00053	बबलिया ऊर्फ देवरीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	बरबटी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00055	डालाखापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मलठार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	जेवरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	जुझारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	खिन्हा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	बबलिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00061	मुकासखुर्द		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00062	नैझर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	कापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	चकदेही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	छपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	फडकीमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	सिवनी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>नैनपुर</b>								
	<b>चिरईडोंगरी</b>								
		00036	धतूरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	गोंडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	बोरीपीपरडाही	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	चीचगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	केरेगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	भालीवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	घमरवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	जामगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	ईश्वरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	रमपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	घटेरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	पालासुन्दर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	रमगढी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	सुभेवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	मल्था		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	सालीवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	परसवाडा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	खोहरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	खुसीपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	डिठोरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	झिरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	जैदेपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-

		00058	सकवाह कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	कजरवाडा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	सरौं	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	जहरमऊ		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00062	मुगदरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00063	तिलई		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	भडिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	धनपुरी रैयत		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	अनझर माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	धनपुरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	चिरईडोंगरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	मानेगांव माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	पाडीवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	इन्दी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00072	चंदिया जर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00073	कामतामाल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00074	सुरखी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00075	टाटरी माल		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00076	बारगी		धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>नैनपुर</b>								
		00001	भरभेली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	पुतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	बीजेगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	झुलपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	तिन्दुआबम्हनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	रामदेवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	बरबसपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	पाठासिहोरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	धूरवाडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	चिंचोली		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	सर्रा पिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	कन्हरगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	भैसवाही		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	तूमेगांव		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	जलतरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	पिपरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	पिण्डरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	खिरखिरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	पौडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	जेवनारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	रैवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	छतरवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	हीरापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	ओहानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सर्गोनिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	गौराछापर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	अलीपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	देल्हा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	मक्के	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	निवारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	समनापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	नैनपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	उमरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00035	अतरिया	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	<b>बिछिया</b>								
		<b>अंजनिया</b>							
		00001	रामनगर		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	खिरहनी		धानअसिंचित	-	-	-	-

*(Handwritten mark)*

		00003	नकावल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	इमलिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	भावा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	हराभाट माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	डुडका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	माधोपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	नरनीमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	जगनाथर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	करियागांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	नारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	दिवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	लफरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	मांगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	आमाडोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	बरबसपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	काताजर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	मानिकपुर माल	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बटवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	ककैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	झिगराघाट	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	बोकर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00025	अंजनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00026	अहमदपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	बंजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	मांद		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	कांसखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	मेढानाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	औरई रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	घाँट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	उमरवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	चंनरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
			<b>खटिया</b>						
		00035	धुतका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	चरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	तिलरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	राता		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	डुगरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	मोचा		धानअसिचित	-	-	-	-
			<b>घुटास</b>						
		00074	बरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	बीजा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	घुटास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	सिंघौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	परसाटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	देवरीदादर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	केवलारी कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	छपरतला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	पिपरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	भाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मुडियारिचका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	सहजपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	नंदराम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	समनापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	दाढी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	कन्हली रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	भानपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	सकवाह		धानअसिचित	-	-	-	-

		00092	कोलमगहन		धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	पिपरी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00094	मोहगांव रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00095	अंजनीमाख		धानअसिचित	-	-	-	-
		00096	घन्दवारा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>बिछिया</b>								
		00042	ठोडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	कन्हारी कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	डीलवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	भुआ रैयत	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00046	नेवसा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बिछिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	माझीपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	कटंगा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	खलौडी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	खटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	जोगीसोडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	मोहाड		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	धरमपुरी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	मनोहरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	राजोमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	करंजिया माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	चौरंगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	बरखेडा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कुडैला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	सिझोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	कोको रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	हरीभाट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	भीमा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	देई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00067	पडरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	तपटी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	बुडला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	केवलारी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	खम्हरीटी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	मटावल ऊर्फ दान्नीटोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	निवसा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मवई</b>								
		00097	धनगांव माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00098	अतरिया रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00099	मडफा माल		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00100	सादा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00101	अमवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00102	सारसडौली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00103	मवई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00104	पखवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00105	बसनी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00106	मझगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00107	पौडी ऊर्फ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00108	जमगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00110	मेंढा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00111	परसेल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00112	घोंटा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00113	टिकरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00114	मोतीनाला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00116	नेवसा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00117	नरहरगंज		धानअसिचित	-	-	-	-

		00118	खलौडी रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00119	चंदगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00120	इन्दी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00121	भीमडोंगरी		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मण्डला</b>								
	<b>बम्हनी</b>								
		00001	खुर्सीपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	जारगी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	बदार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	मलारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	बैहगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	सुभरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	बोरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	ढंको	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00009	सुन्हेरा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	बम्हनीबजर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	सिलगी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	देवगांव	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00013	ग्वारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	ठरका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	लिमरुआ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	भवंरदा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धौरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	टिकरवारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	हिरदेनगर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	सुकतरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	बरगावा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00024	घुघरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00025	मधुपुरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00026	खडदेवरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00027	औघटखपरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00028	पदनी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00029	भपसा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00031	मलारी चक	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	गुडाअंजनिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00023	गुरारखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मण्डला ब</b>								
		00043	ग्वारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बकछेरागाँदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	बकोरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	खारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	उमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	सागर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	खुकसर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	तिदनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	चट्टआमार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	सेमरखापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	गोड़ी माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	बिड़िया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	कोरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	पीपरपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	आमानाला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बडी खैरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	बरबसपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	खुडिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	तिलईपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	छपरी सिलपुरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	पटपरा रैयत		धानअसिचित	-	-	-	-



		00070	बिनेका		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	जंतीपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	टिकरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	बनियातारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	बकछेरादोना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	मवईजर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	मोहनिया पटपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	किन्दी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	निरदगढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00079	पौडीमाल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	झालपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	पटपरसिंगारपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	सिंगारपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	लिंगा माल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	मोहगांव चक		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>महाराजपुर</b>								
		00032	केहरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	महाराजपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	मानादेई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	खापा कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	मालीमोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	इमलीगोहान		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	सिलपुरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	घाघा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	अहमदपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	साल्हेडडा		धानअसिचित	-	-	-	-

*(Signature)*

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
टीकमगढ़	खरगापुर	कडीला	00019	चन्द्रपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00020	कडीला	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00021	रमपुरा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00022	धरमपुरा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00023	देरी	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00024	धनेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00025	छिदारी	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00026	पचेर खास	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-		
			00027	पिपरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00028	भानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00029	टीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00030	कोटरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00031	दोह	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00032	खजुरार	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00033	चदेरी खास	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			00034	दूबदेई	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
			खरगापुर	खरगापुर	खरगापुर	00001	पिपरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00002	श्यामपुरा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-
						00003	सरकनपुर खास	-	-	सोयाबीन	-	-
						00004	सिजौरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00005	चौबारा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00006	गौरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00007	गुना	-	-	सोयाबीन	-	-
						00008	मातौल खास	-	-	सोयाबीन	-	-
						00009	पथरगुवा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00010	खेरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00011	फुटेर चक्र 2	-	-	सोयाबीन	-	-
						00012	फुटेर चक्र 1	-	-	सोयाबीन	-	-
						00013	देवपुर	-	-	सोयाबीन	-	-
						00014	खरगापुर	-	-	सोयाबीन	-	-
						00015	बडेरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00016	मनपसार	-	-	सोयाबीन	-	-
						00017	खरौ	-	-	सोयाबीन	-	-
						00018	फरका पठराई	-	-	सोयाबीन	-	-
			जतारा	जतारा	जतारा	00020	गुहारा खास	-	-	सोयाबीन	-	-
						00021	गारौली	-	-	सोयाबीन	-	-
						00022	शाह	-	-	सोयाबीन	-	-
						00025	लिधौरा ताल	-	-	सोयाबीन	-	-
						00026	जतारा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00027	बम्हौरी अब्दा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00028	टोनगा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00030	मचौरा	-	-	सोयाबीन	-	-
						00033	माची	-	-	सोयाबीन	-	-
						00035	सिमरिया	-	-	सोयाबीन	-	-
			00038	हृदयनगर	-	-	सोयाबीन	-	-			

		00041	जरुवा			सोयाबीन		
	<b>दिगोडा</b>							
		00001	पूनोल			सोयाबीन		
		00002	खरीई			सोयाबीन		
		00004	बछौडा			सोयाबीन		
		00005	मऊबुजुग			सोयाबीन		
		00006	दिगोडा			सोयाबीन		
		00008	देयखा			सोयाबीन		
	<b>टीकमगढ</b>							
	<b>टीकमगढ</b>							
		00001	कांटी खास			सोयाबीन		
		00002	हीरानगर			सोयाबीन		
		00003	कारी खास			सोयाबीन		
		00004	आलमपुरा			सोयाबीन		
		00005	गोपालपुरा			सोयाबीन		
		00006	बडागांव खुर्द			सोयाबीन		
		00007	अनन्तपुरा			सोयाबीन		
		00009	पहाडी खुर्द			सोयाबीन		
		00010	बडौरा घाट			सोयाबीन		
		00011	मऊघाट			सोयाबीन		
		00012	कुंअरपुरा			सोयाबीन		
		00013	नयाखेरा			सोयाबीन		
		00014	बोरी			सोयाबीन		
		00015	महराजपुरा			सोयाबीन		
		00016	गनेशगंज			सोयाबीन		
		00017	शिवपुरी			सोयाबीन		
		00021	मामीन			सोयाबीन		
		00029	जसवन्तनगर			सोयाबीन		
		00030	पपावनी			सोयाबीन		
		00031	रानीपुरा			सोयाबीन		
		00032	लखौरा			सोयाबीन		
		00034	बडमाडई			सोयाबीन		
		00025	मवई खास		धानअसिचित			
	<b>बडागांव</b>							
		00060	लार खास			सोयाबीन		
		00061	बडमाडई खास			सोयाबीन		
		00062	लक्ष्मणपुरा			सोयाबीन		
		00063	नन्नी टहरी खास			सोयाबीन		
		00064	बुडेरा			सोयाबीन		
		00065	डिकोली चक्र 1			सोयाबीन		
		00066	नयागांव			सोयाबीन		
		00067	भैरा			सोयाबीन		
		00068	सुजारा			सोयाबीन		
		00069	रामनगर			सोयाबीन		
		00070	दरी			सोयाबीन		
		00071	अमरपुर			सोयाबीन		
		00072	परा खास			सोयाबीन		
		00073	दरगंवा			सोयाबीन		
		00074	डूडा टोरा			सोयाबीन		
		00075	मोखरा			सोयाबीन		
		00076	बडागांव			सोयाबीन		
		00077	अन्तौरा			सोयाबीन		
		00078	डूडा			सोयाबीन		
		00079	हैदरपुर			सोयाबीन		
		00080	ऊमरी			सोयाबीन		
		00081	भंसवारी			सोयाबीन		
		00082	ककरवाहा खास			सोयाबीन		

		00083	श्रेता		सोयाबीन		
	समरा	00035	बहादुरपुर		सोयाबीन		
		00036	माडूमर खास		सोयाबीन		
		00037	पहाडी तिलवारन		सोयाबीन		
		00038	नचनवारा		सोयाबीन		
		00039	मिनौरा		सोयाबीन		
		00040	चरपुआ		सोयाबीन		
		00041	करमारई		सोयाबीन		
		00042	हरपुरा मडिया		सोयाबीन		
		00043	कन्होरु खिरिया		सोयाबीन		
		00044	धनवाहा		सोयाबीन		
		00045	अस्तीन खास		सोयाबीन		
		00046	जुडावन		सोयाबीन		
		00047	बम्होरी मडिया		सोयाबीन		
		00048	पठा खास		सोयाबीन		
		00049	मातोली		सोयाबीन		
		00050	सुन्दरपुर		सोयाबीन		
		00051	नैनवारी		सोयाबीन		
		00052	बकपुरा		सोयाबीन		
		00053	गुदनवारा		सोयाबीन		
		00054	समरा		सोयाबीन		
		00055	सुकवाहा		सोयाबीन		
		00056	सापीन		सोयाबीन		
		00057	अजनौर		सोयाबीन		
		00058	पातरखेरा		सोयाबीन		
		00059	राधापुर		सोयाबीन		
	निवाडी						
		तरीघरकला					
		00025	उबोरा		सोयाबीन		
		00028	तरीघर कला		सोयाबीन		
		00029	विनवारा		सोयाबीन		
		निवाडी					
		00002	बीजोर		सोयाबीन		
		00003	बाघाटा		सोयाबीन		
		00004	देवरी कलरु		सोयाबीन		
		00012	टीला		सोयाबीन		
		00039	टेहरका खास		सोयाबीन		
		00046	झिंगोरा		सोयाबीन		
		00051	मकारा		सोयाबीन		
		00052	बिल्ट		सोयाबीन		
		00054	पोहा खास		सोयाबीन		
	पलेरा						
		पलेरा					
		00028	लारोन		सोयाबीन		
		00029	बखतपुरा		सोयाबीन		
		00037	बूदोर		सोयाबीन		
		00038	टपरिया चौहान		सोयाबीन		
		00046	लहरबजुर्ग		सोयाबीन		
		वराना					
		00003	बम्होरी कला		सोयाबीन		
		00010	सिमरा खुर्द		सोयाबीन		
		00011	वराना		सोयाबीन		
		00022	टोरिया खास		सोयाबीन		
	प्रध्वीपुर						
		जेरोन					
		00036	मजल		सोयाबीन		

		00037	जेरोन खालसा		सोयाबीन	-	-	-
		00038	टोडी		सोयाबीन	-	-	-
		00039	डिरगुवा		सोयाबीन	-	-	-
		00040	मुडेनी		सोयाबीन	-	-	-
		00041	रोतेरा		सोयाबीन	-	-	-
		00042	जैरोन जागीर		सोयाबीन	-	-	-
		00043	ममोरा		सोयाबीन	-	-	-
		00044	लुहरगुवा		सोयाबीन	-	-	-
		00046	ककावनी खास		सोयाबीन	-	-	-
		00047	चिरपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00048	पाराखेरा खास		सोयाबीन	-	-	-
		00049	बारहो बुजुर्ग		सोयाबीन	-	-	-
	<b>नेगुवा</b>							
		00005	भेलसा		सोयाबीन	-	-	-
		00006	मोहनपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00007	दिल्ला		सोयाबीन	-	-	-
		00008	कुवरपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00010	पनिहारी		सोयाबीन	-	-	-
		00012	सुजानपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00013	नेगुवाखास		सोयाबीन	-	-	-
		00014	सकेरा खुदे		सोयाबीन	-	-	-
		00015	दरैठा		सोयाबीन	-	-	-
		00016	अतरा		सोयाबीन	-	-	-
		00017	पपावनी खास		सोयाबीन	-	-	-
		00018	वनियानी		सोयाबीन	-	-	-
		00019	धोरा		सोयाबीन	-	-	-
		00020	सरसोरा		सोयाबीन	-	-	-
		00021	वीरसागर		सोयाबीन	-	-	-
		00022	मडवा राजगढ		सोयाबीन	-	-	-
	<b>पृथ्वीपुर</b>							
		00050	मडियाखास		सोयाबीन	-	-	-
		00061	पहाडीवकसी		सोयाबीन	-	-	-
		00067	विरोरा खेत		सोयाबीन	-	-	-
		00066	विरोरा पहाड खास		सोयाबीन	-	-	-
		00068	सकेरा मंडारन		सोयाबीन	-	-	-
		00071	जेवराभोरा		सोयाबीन	-	-	-
	<b>सिमरा</b>							
		00023	बमरोली		सोयाबीन	-	-	-
		00024	भोपालपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00025	जवारपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00026	जेराखास		सोयाबीन	-	-	-
		00027	महुआबाग		सोयाबीन	-	-	-
		00028	कछियाखेरा		सोयाबीन	-	-	-
		00029	दिगवारकला		सोयाबीन	-	-	-
		00030	सिमरा भाटा		सोयाबीन	-	-	-
		00031	सिमरा खास		सोयाबीन	-	-	-
		00032	रमपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00033	मजरा शिवलाल		सोयाबीन	-	-	-
		00034	ततारपुरा		सोयाबीन	-	-	-
		00035	घुरारा जागीर		सोयाबीन	-	-	-
	<b>बल्देवगढ</b>							
	<b>डारगुवा</b>							
		00028	भेलसी		सोयाबीन	-	-	-
		00029	बडाघाट		सोयाबीन	-	-	-
		00030	देवरदा		सोयाबीन	-	-	-
		00031	बुदौरा		सोयाबीन	-	-	-
		00032	सुरजपुर		सोयाबीन	-	-	-

		00033	डारगुवां खालसा			सोयाबीन			
		00034	इमलाना			सोयाबीन			
		00035	हटा			सोयाबीन			
		00036	खोडेरा			सोयाबीन			
		00037	लमेरा			सोयाबीन			
		00038	परोरा			सोयाबीन			
		00039	कन्नपुर			सोयाबीन			
		00040	पटौरी जागीर			सोयाबीन			
		00041	मौने का खेरा			सोयाबीन			
		00042	मलगुवां			सोयाबीन			
		00043	सरकर खालसा			सोयाबीन			
		00044	हीरापुर खास			सोयाबीन			
		00045	बरमै			सोयाबीन			
		00046	वनपुरा वुजुर्ग			सोयाबीन			
		00047	इमिलिया			सोयाबीन			
		00048	खरीला			सोयाबीन			
			<b>बल्देवगढ</b>						
		00001	मझगुवां			सोयाबीन			
		00002	बनयानी			सोयाबीन			
		00003	हीरापुर नजदीक सरकनपुर			सोयाबीन			
		00005	राजनगर			सोयाबीन			
		00006	करमासन हटा			सोयाबीन			
		00007	वैसा खास			सोयाबीन			
		00008	देवीनगर			सोयाबीन			
		00009	दुर्गानगर			सोयाबीन			
		00010	लडवारी खास			सोयाबीन			
		00011	कछयाखेरा			सोयाबीन			
		00012	अहार			सोयाबीन			
		00013	नारायनपुर			सोयाबीन			
		00014	डूडाखेरा			सोयाबीन			
		00015	लुहरा			सोयाबीन			
		00016	डुम्बार			सोयाबीन			
		00017	गनेशपुरा			सोयाबीन			
		00018	तालमऊ			सोयाबीन			
		00019	वृषभानपुरारा			सोयाबीन			
		00020	वनैरा			सोयाबीन			
		00021	गुखरई खास			सोयाबीन			
		00022	लखेरी			सोयाबीन			
		00023	केलपुरा			सोयाबीन			
		00024	बल्देवगढ			सोयाबीन			
		00025	जिनागढ			सोयाबीन			
		00026	सुजानपुरा खास			सोयाबीन			
		00027	जटेरा			सोयाबीन			
			<b>मोहनगढ</b>						
			<b>गोर</b>						
		00022	लखेपुरा			सोयाबीन			
		00023	मालपीथा			सोयाबीन			
		00024	सौगन्ता			सोयाबीन			
		00025	जगतनगर			सोयाबीन			
		00027	दरगांय कला			सोयाबीन			
		00028	वनगांय			सोयाबीन			
		00029	विजरावन			सोयाबीन			
		00030	नादिया			सोयाबीन			
		00031	पडवार			सोयाबीन			
		00032	मझगुवां			सोयाबीन			
		00033	रामनगर			सोयाबीन			
		00034	खेरा			सोयाबीन			

		00035	मडखरा	-	सोयाबीन	-	-
		00036	शिवराजपुर	-	सोयाबीन	-	-
	<b>मोहनगढ</b>						
		00001	केशवगढ खास	-	सोयाबीन	-	-
		00002	हतेरी	-	सोयाबीन	-	-
		00003	बृषभानपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00004	खाखरीन	-	सोयाबीन	-	-
		00005	नंदनवारा	-	सोयाबीन	-	-
		00006	खर बम्होरी	-	सोयाबीन	-	-
		00007	कम्हैडी खास	-	सोयाबीन	-	-
		00008	बंघा	-	सोयाबीन	-	-
		00009	बिंदारी खास	-	सोयाबीन	-	-
		00010	बरेठी खास	-	सोयाबीन	-	-
		00011	बहादुरपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00014	अचरी	-	सोयाबीन	-	-
		00015	कुंवरपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00016	मोहनगढ खास	-	सोयाबीन	-	-
		00017	इकबालपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00018	मस्तापुर	-	सोयाबीन	-	-
		00019	पंचमपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00021	भोरगढ	-	सोयाबीन	-	-
	<b>लिधौरा</b>						
	<b>लिधौरा</b>						
		00001	लाखरीन	-	सोयाबीन	-	-
		00002	रानीगंज	-	सोयाबीन	-	-
		00003	बम्होरी खास	-	सोयाबीन	-	-
		00004	रतनगुंवा खास	-	सोयाबीन	-	-
		00008	मरगुंवा	-	सोयाबीन	-	-
		00009	वराना खास	-	सोयाबीन	-	-
		00010	छिपरी	-	सोयाबीन	-	-
		00011	लिधौरा खास	-	सोयाबीन	-	-
		00013	सतगुंवा खास	-	सोयाबीन	-	-
		00014	शाहपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00015	फतेह का खिरक	-	सोयाबीन	-	-

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची  
अधिसूचना हेतु संशोधन प्रस्ताव

मौसम खरीफ		वर्ष 2016-17		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा. नि. म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
खरगौन	कसरावद	कसरावद								
			00004	बलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बालसमुन्द	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00006	डोगरगांव	-	-	-	-	-	-
			00007	सायता	-	-	-	-	-	-
			00010	मोगावां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	दोगावा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	कसरावद खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	कसरावद बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	भीलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	गवला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	रूपखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	टेमरनी	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00053	बरसलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	सिपटान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	उटावद	-	-	-	-	-	-
			00015	काटकूर	-	-	-	मक्का	-	-
कसरावद	मुलठान									
			00009	माकडखेड़ा	-	-	-	-	-	-
			00030	मकुन्दपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मगरखेड़ी	-	-	-	-	-	-
			00032	खडकवानी	-	-	-	-	-	-
			00038	डाबरी	-	-	-	-	-	-
			00039	साईंखेड़ा	-	-	-	-	-	-
			00065	सामेड़ा	-	-	-	-	-	-
			00066	लेपा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	पिपलगोन	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00067	अमलाथा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	भग्यापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	बाड़ी	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00074	दुर्गापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00076	मुलठान	-	-	-	-	-	-
			00077	भट्ट्याण खुर्द	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00084	खेड़ी बुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
खरगौन	खरगौन									
			00001	बगावां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	दसंगा	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-
			00003	घेगांवा	-	-	-	-	-	-
			00005	डोगरगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	साईंखेड़ा	-	-	सोयाबीन	मक्का	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00007	लिक्खी	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00008	मोटापुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00012	इच्छापुर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00013	पीपरी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00014	उबंदी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00016	पंधान्या	-		सोयाबीन	-	-	-
			00017	इदारतपुर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00019	आसनगांव	-		सोयाबीन	-	-	-
			00026	रणगांव	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00027	सुरपाला	-		सोयाबीन	-	-	-
			00028	नंदगांव रोड	-		सोयाबीन	-	-	-
			00030	ऊन बुजुर्ग	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00031	ऊन खुर्द	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00032	रायबीडपुरा	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00034	सिनखेडा	-		-	-	-	-
			00036	बरूड	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00039	डोगरचिचली	-			मक्का	-	-
			00040	रहीमपुरा	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00044	बलवाडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00049	जामली	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
गोगांवा	गोगांवा						-	-	-	-
			00002	सुरपाला	-		-	मक्का	-	-
			00004	गोगांवा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00006	मोहम्मदपुर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00007	बैजापुर	-		सोयाबीन	-	-	-
			00008	जामन्या	-		सोयाबीन	-	-	-
			00014	गुवाडी	-		सोयाबीन	-	-	-
			00015	मगरिया	-		सोयाबीन	-	-	-
			00017	मेहरजा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00019	देवलगांव	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00021	बैहरामपुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00022	बिलाली	-		सोयाबीन	-	-	-
			00023	घुघरिया खेड़ी	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00024	नागझिरी	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00025	राजपुरा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00027	कुकडौल	-		सोयाबीन	-	-	-
			00028	कुम्हारखेड़ा	-		सोयाबीन	-	-	-
			00034	जगन्नाथपुरा	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00036	घट्टी	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00037	बलगांव	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00038	रूपखेड़ा	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00039	सोलना	-		सोयाबीन	मक्का	-	-
			00040	गाडाघाट	-		सोयाबीन	मक्का	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00041	दसनावल		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00043	हिरापुर		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00044	टेमरना		-	सोयाबीन	-		-
	झिरन्या	झिरन्या	00004	सपाटया			-			
			00007	तिनस्या		-	सोयाबीन	-		-
			00008	मोरदड		-	सोयाबीन	-		-
			00015	खोई		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00017	शिवना		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00018	ठोकनबेड़ा		-	सोयाबीन	-		-
			00022	नीमसेठी		-	सोयाबीन	-		-
			00023	भडलेन		-	सोयाबीन	-		-
			00027	छेडीया		-	सोयाबीन	-		-
			00028	गवला		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00030	भावसिंगपुरा		-	सोयाबीन	-		-
			00032	टिगरीया		-	सोयाबीन	-		-
			00034	सोनखेड़ी		-	सोयाबीन	-		-
			00035	आ. नानकोडी		-	सोयाबीन	-		-
			00037	गोरखपुर		-	सोयाबीन	-		-
			00038	ढसलगांव		-	सोयाबीन	-		-
			00040	बायखेडा		-	सोयाबीन	-		-
			00041	झिरन्या		-	सोयाबीन	-		-
			00042	मारूगढ़		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00043	मानिकेरा		-	सोयाबीन	-		-
			00045	बड़ी		-	सोयाबीन	-		-
			00048	राजपुरा		-	सोयाबीन	-		-
			00050	माडवी		-	-	-		-
			00051	नहालदरी		-	सोयाबीन	-		-
			00053	दामखेड़ा		-	सोयाबीन	-		-
			00005	कांकरीया		-	सोयाबीन	-		-
			00006	पखाल्या		-	सोयाबीन	-		-
			00009	मोरबा		-	सोयाबीन	-		-
			00010	देवित बुजुर्ग		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00014	चेनपुर		-	सोयाबीन	-		-
			00033	रेहटफल		-	सोयाबीन	-		-
	बड़वाह	बड़वाह								
		(आर.आई.01)	00002	रमठान		-	सोयाबीन	-		-
			00003	बागोद		-	सोयाबीन	-		-
			00004	टेमला		-	सोयाबीन	-		-
			00007	सुरपाला		-	सोयाबीन	-		-
			00026	रावेर		-	-	-		-
			00034	बिजगोन		-	-	-		-
			00035	लौंदी		-	-	-		-
			00037	सोरठीबारूल		-	सोयाबीन	-		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00040	पडालीखुर्द		-	सोयाबीन	-		-
			00041	आरसी मिर्जापुर		-	-	-		
			00049	डाल्याखेडी		-	-	-		
			00051	भातूड		-	-	-		
			00054	दाभड		-	-	-		
	सनावद	सनावद (आर.आई.02)								
			00059	आलीखुर्द		-	-	-		
			00060	टोकसर		-	-	-		
			00062	रहडकोट		-	-	-		
			00066	फनगांव		-	-	-		
			00071	जिरभार		-	-	-		
			00076	बडगांव		-	-	-		
			00079	नलवट		-	-	-		
			00080	अम्बा		-	-	-		
			00081	बागदा बुजुर्ग		-	-	-		
			00082	वैडिया		-	सोयाबीन	-		-
			00086	सताजना		-	-	-		-
			00089	बडूद		-	सोयाबीन	-		-
			00092	टोकलाय		-	-	-		
			00098	नलवां		-	-	-		
			00099	ढकलगांव		-	-	-		
			00102	सनावद		-	-	-		
			00103	चित्रमोड		-	-	-		
			00104	अंजरूद		-	-	-		
			00106	खुडगांव		-	-	-		
			00108	बोधगांव		-	-	-		
			00112	मलगांव		-	-	-		
			00113	बागरदा		-	-	-		
			00114	भोमवाड़ा		-	-	-		
			00115	कोटल्याखेडी		-	-	-		
	भगवानपुर	भगवानपुरा								
			00003	मोहना		-	-	-		
			00005	बहादरपुरा		-	-	-		
			00007	काबरी		-	-	-		
			00008	भुलवान्या		-	-	-		
			00018	बाड़ीखुर्द		-	-	-		
			00020	अनकवाड़ी		-	-	-		
			00021	दामखेड़ा		-	-	-		
			00023	बन्हेर		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00024	भातुड		-	सोयाबीन	मक्का		-
			00026	बागदरा		-	-	-		
			00027	ढाबला		-	-	मक्का		-
			00029	गढी		-	सोयाबीन	-		-
			00031	मोगरगांव		-	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00032	रसगागली	-	-				
			00034	मांडव खेडा	-	-	मक्का			
			00046	पिपलझोपा	-	-				
			00047	पलाशकुट	-	-				
			00048	धरमपुरी	-	-	सोयाबीन	-		
			00051	सिरवेल	-	-	सोयाबीन	-		
			00052	उमरीया	-	-		-		
			00055	गोटिया	-	-	सोयाबीन	-		
भीकनगांव	भीकनगांव		00002	बिटनेरा	-	-	सोयाबीन	-		
			00006	निमोनी	-	-	सोयाबीन	-		
			00009	चौंड़ीमहोली	-	-				
			00010	बौरूठ	-	-				
			00016	सिराली	-	-				
			00017	अमनखेडी	-	-	सोयाबीन	-		
			00020	भगवानपुरा	-	-	सोयाबीन	-		
			00021	अंदड	-	-	सोयाबीन	-		
			00035	नरगांव	-	-				
			00042	टेमला	-	-	सोयाबीन	-		
			00043	भीकनगांव	-	-				
			00048	बलखडिया	-	-	सोयाबीन	-		
			00049	सगूर	-	-	सोयाबीन	-		
			00050	पोई	-	-	सोयाबीन	-		
			00051	भोपाड़ा	-	-	सोयाबीन	-		
			00053	बमनाला	-	-	सोयाबीन	-		
			00054	वल्का	-	-	सोयाबीन	-		
			00056	सूर्वाकोयडा	-	-	सोयाबीन	-		
			00057	सतवाडा	-	-	सोयाबीन	-		
			00058	पोखराबाद	-	-	सोयाबीन	-		
			00060	जामन्याबुजूर्ग	-	-	सोयाबीन	-		
			00063	पिपल्याबुजूर्ग	-	-	सोयाबीन	-		
			00064	बडिया	-	-	सोयाबीन	-		
			00065	पलासी	-	-	सोयाबीन	-		
			00066	सुन्दरेल	-	-	सोयाबीन	-		
महेश्वर	करही		00047	कतरगांव	-	-	सोयाबीन	-		
			00049	बिलवावडी	-	-				
			00050	होदडिया	-	-	सोयाबीन	-		
			00059	वणी	-	-	सोयाबीन	-		
			00068	पालसूद	-	-	सोयाबीन	-		
			00069	माचलपुर	-	-	सोयाबीन	-		
			00070	वरलाय	-	-	सोयाबीन	-		
महेश्वर	महेश्वर		00001	काकडदा	-	-				
			00003	बाकानेर	-	-				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00004	आशापुर	-	-	मक्का			-
			00005	सेल	-	-	मक्का			-
			00006	मक्षी	-	-	मक्का			-
			00009	इटवदी	-		सोयाबीन	-		-
			00011	मोहना	-		सोयाबीन	मक्का		-
			00014	गुजरमोहना			-			
			00016	सिरस्या	-	-	मक्का			-
			00019	महेतवाडा			-			
			00020	मातमूर			-			
			00021	जलकोटा	-		सोयाबीन	-		-
			00027	करोदिया	-		सोयाबीन	-		-
			00028	समराज	-		सोयाबीन	-		-
			00029	चिन्दाड़िया			-			
			00033	भकलाय	-		मक्का			-
			00035	भूदरी	-		सोयाबीन	-		-
			00036	गुलावड	-		सोयाबीन	-		-
			00039	झापड़ी	-		सोयाबीन	-		-
			00043	छोटीखरगोन	-		सोयाबीन	-		-
			00044	सुलगांव	-		सोयाबीन	-		-
सैगांव	सैगांव		00006	सतावड	-	-	मक्का			-
			00007	कमोदवाडा	-	-	मक्का			-
			00008	गंधावड	-		सोयाबीन	मक्का		-
			00011	तलकपुरा	-	-	मक्का			-
			00012	बिरला	-	-	मक्का			-
			00014	खमखेड़ा	-	-				-
			00015	गोलवाडी	-	-	मक्का			-
			00016	रहेगून	-	-	मक्का			-
			00019	आछलवाड़ी	-	-	मक्का			-
			00020	बनिहार	-	-				-
			00023	लेहकू	-		सोयाबीन	-		-
			00026	पनाली	-	-	मक्का			-
			00027	उपडी	-	-	मक्का			-
			00029	सांगवी	-	-	मक्का			-
			00030	भडवाली	-	-	मक्का			-
			00032	महूगांव			सोयाबीन	मक्का		-
			00017	तिरी	-	-	मक्का			-
			00018	चिचगढ़	-	-	मक्का			-
			00025	जाजलवाड़ी	-	-	मक्का			-
			00033	सिनखेड़ी	-	-	मक्का			-
			00034	डालकी	-	-	मक्का			-
			00035	केशवपुरा	-	-	मक्का			-
			00036	श्रीखण्डी	-		सोयाबीन	मक्का		-
			00037	सिलोटिया	-	-	मक्का			-

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
<b>सतना</b>										
मूल अधिसूचना क्र.189, दिनांक 23.4.16 में निम्नानुसार हल्कों के समक्ष फसलों को जोड़ा जाता है ।										
	<b>अमरपाटन</b>									
		<b>अमर पाटन</b>								
			00025	सरबका			सोयाबीन	-	-	-
			00029	परसवाही		धानअसिंचित		-	-	-
			00030	लालपुर			सोयाबीन	-	-	-
			00031	बरहबडा			सोयाबीन	-	-	-
			00032	मोहरिया लालन			सोयाबीन	-	-	-
			00035	सुआ			सोयाबीन	-	-	-
			00037	खरमसेडा				तुअर	-	-
			38	इरमा कोठार			सोयाबीन	तुअर		
			00039	चोरखडी			सोयाबीन	-	-	-
		<b>ताला</b>								
			00049	मझगवां			सोयाबीन	-	-	-
			00050	घुइसा			सोयाबीन	-	-	-
			00051	इटमा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00053	बिगौडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00068	ताला			सोयाबीन	-	-	-
			00071	बिधुई खुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
		<b>मोहारी कटरा</b>								
			00001	कोरिगवां			सोयाबीन	-	-	-
			00002	करहीलामी			सोयाबीन	-	-	-
			00004	दिनापुर			सोयाबीन	-	-	-
			00005	सिलपरी			सोयाबीन	-	-	-
			00006	त्योधरी			सोयाबीन	-	-	-
			00008	सेमरिया			सोयाबीन	-	-	-
			00009	रुहिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	बेला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	केमार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00012	पैपखरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	मढा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	पगारा			सोयाबीन	-	-	-
			00016	खुटहा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00017	महडर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00019	देउ			सोयाबीन	-	-	-
			00020	मोहारी कटरा			सोयाबीन	-	-	-
			00021	अहिरगांव			सोयाबीन	-	-	-
			00022	उमरी शिवराजी			सोयाबीन	-	-	-
			00024	बछरा		धानअसिंचित	-	-	-	-
		<b>उचैहरा</b>								
		<b>अटरा</b>								
			00017	श्यामनगर			सोयाबीन	-	-	-
			00018	पथरीधा			सोयाबीन	-	-	-
			00019	सेमरी			सोयाबीन	-	-	-
			00020	खैरी			सोयाबीन	-	-	-
			00021	जाखी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00022	अमदरी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00023	कुलगढी		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00024	मानिकपुर			सोयाबीन	-	-	-
			00025	लालपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-

		00026	नन्दहा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00029	अटरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00030	पोडी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00031	पिथौराबाद	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00032	वीरपुर	धानअसिचित		-	-
		00033	पतौरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00035	लोहौरा	-	सोयाबीन	-	-
		00036	बांधी मोहार	धानअसिचित		-	-
		00037	तिघरा	धानअसिचित		-	-
	<b>उचेहरा</b>						
		00055	गडौली	धानअसिचित		-	-
		00060	बिहटा	धानअसिचित		-	-
		00062	बंदरहा	-	सोयाबीन	-	-
		00065	इटहा खोखरी	-	सोयाबीन	-	-
		00071	पथरहटा	धानअसिचित		-	-
	<b>लगरगवां</b>						
		00038	बडखेरा	धानअसिचित		-	-
		00039	भटनवारा	धानअसिचित		-	-
		00040	सेमरी दुवे	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00041	सहिजना उबारी	धानअसिचित		-	-
		00042	बाबुपुर		सोयाबीन	-	-
		00043	बडखुरा		सोयाबीन	-	-
		00045	मतरी पतौरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00048	गोवराव कला	धानअसिचित		-	-
		00049	धनेह	धानअसिचित		-	-
		00050	भरहटा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00051	कुदहरी कला	धानअसिचित		-	-
		00052	अकहा	धानअसिचित		-	-
		00053	देवार	धानअसिचित		-	-
	<b>कोटार</b>						
	<b>कोटार</b>						
		00009	बरदाडीह	धानअसिचित		-	-
		00011	गढवा खुर्द	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
	<b>छिबीरा</b>						
		00026	बकियाबैलो	धानअसिचित		-	-
		00027	बकिया तिवरियान	धानअसिचित		-	-
		00028	कंदवा	धानअसिचित		-	-
		00029	मढी	धानअसिचित		-	-
		00032	रघुनाथपुर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00034	छिबीरा	धानअसिचित		-	-
		00035	मझियार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00036	महिदल कला	धानअसिचित		-	-
		00037	गाजन	धानअसिचित		-	-
		00038	देवमउ दलदल	धानअसिचित		-	-
	<b>बिहरा</b>						
		00014	लखनवाह	धानअसिचित		-	-
		00020	चितगढ		सोयाबीन	-	-
	<b>नागौद</b>						
	<b>जसो</b>						
		00061	अतरौरा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00062	पवइया		सोयाबीन	-	-
		00063	सेमरी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00064	उमरी ब्रजनन्दन	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00066	जसो		सोयाबीन	-	-
		00067	कलावल जेरपाठा	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-
		00068	पासी		सोयाबीन	-	-
		00069	इडहा		सोयाबीन	-	-
		00070	दतुनहा		सोयाबीन	-	-
		00071	रीकूल		सोयाबीन	-	-

*(Handwritten signature)*

		00072	दुरेहा			सोयाबीन	-	-	-
		00073	कपुरी			सोयाबीन	-	-	-
		00074	रुनेही		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00075	सिजहटी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00076	अमकई			सोयाबीन	-	-	-
	<b>डाम्हा</b>								
		00024	कतकोन कला		धानअसिचित		-	-	-
		00026	कचनार		धानअसिचित		-	-	-
		00029	रजरवारा		धानअसिचित		-	-	-
		00034	बचबई			सोयाबीन	-	-	-
		00036	इटमा			सोयाबीन	-	-	-
		00040	रेरुआ खुर्द		धानअसिचित		-	-	-
	<b>नागौद</b>								
		00043	खैरा		धानअसिचित		-	-	-
		00045	बारापत्थर			सोयाबीन	-	-	-
		00047	इटौरा कला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सेमरवारा			सोयाबीन	-	-	-
		00056	नौनिया			सोयाबीन	-	-	-
		00058	उजनेही			सोयाबीन	-	-	-
		00059	खमरेही			सोयाबीन	-	-	-
	<b>रहिकवारा</b>								
		00077	उमरिहा			सोयाबीन	-	-	-
		00078	झिगोदर			सोयाबीन	-	-	-
		00079	कोटा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00080	कोनी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बमुरहिया			सोयाबीन	-	-	-
		00083	चुनहा			सोयाबीन	-	-	-
		00084	सुरदहा कला			सोयाबीन	-	-	-
		00085	जादौपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00086	सुरदहा खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00088	माडाटोला		धानअसिचित		-	-	-
		00089	शहपुर		धानअसिचित		-	-	-
		00094	रहिकवारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>शिवराजपुर</b>								
		00001	मडई		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कल्प्या			सोयाबीन	-	-	-
		00005	दुर्गापुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00006	आजी खैरा			सोयाबीन	-	-	-
		00007	बण्डी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बिलौधा			सोयाबीन	-	-	-
		00009	पिपरी			सोयाबीन	-	-	-
		00010	कोटा			सोयाबीन	-	-	-
		00011	देवरी			सोयाबीन	-	-	-
		00012	आमा			सोयाबीन	-	-	-
	<b>सिहपुर</b>								
		00013	नोनगरा			सोयाबीन	-	-	-
		00014	पनगरा			सोयाबीन	-	-	-
		00015	रीड			सोयाबीन	-	-	-
		00016	उसरार			सोयाबीन	-	-	-
		00017	महलैन			सोयाबीन	-	-	-
		00018	सिहपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00019	मैहाई			सोयाबीन	-	-	-
		00020	खम्हरिया खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00021	बेलगहना			सोयाबीन	-	-	-
		00022	मझियारी			सोयाबीन	-	-	-
		00023	बेला			सोयाबीन	-	-	-
	<b>बिरसिहपुर</b>								
	<b>जैतवारा</b>								
		00001	नयागांव			सोयाबीन	-	-	-



		00003	खुटहा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	किटहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जैतवारा			सोयाबीन	-	-	-
		00012	मझगवां		धानअसिचित		-	-	-
		00014	बेरहना (बाधी)			सोयाबीन	-	-	-
		00015	बाधी			सोयाबीन	-	-	-
		00016	सुजावल खुद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बडखेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मचखडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पिपरी टोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पगार खुद			सोयाबीन	-	-	-
		00021	पगार कला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बडेरा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सभापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>धारकुण्डी (अमवा)</b>								
		00039	हरदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	बिटमा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	<b>बिरसिंहपुर</b>								
		00027	बिरसिंहपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00028	तिघरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हरदुआ		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	झोटा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बैरहना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गोडगवां		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हलावन		धानअसिचित		-	-	-
		00034	शुकवाह		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00042	हरिहरपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पडुहार			सोयाबीन	-	-	-
		00045	पटना कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	खडौरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00047	पचलीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कलबलिया			सोयाबीन	-	-	-
		00043	रिमारी		-	सोयाबीन	-	-	-
	<b>मझगवां</b>								
	<b>बरीधा</b>								
		00001	भियामउ			सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	कन्दर		-	-	तुअर	-	-
		00005	नरदहा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00011	भठवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	केल्हौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	सिंहपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मझगवां</b>								
		00048	कारीगोही			सोयाबीन	-	-	-
		00055	वीरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
	<b>मैहर</b>								
	<b>अमदरा</b>								
		00001	झुकेही	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00002	पत्तोहा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00005	सभागज	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00006	पथरहटा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00007	गुगडी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00008	पकरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00011	पाला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	तिघरा खुद	धानसिचित	-	-	-	-	-
	<b>कसेडी</b>								
		00019	सेमरा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00020	रेगवां	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	घुनवारा	धानसिचित	-	-	-	-	-

		00022	मतवासा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	महेदर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	गोरइया कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	कुसेडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	भरौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	भमरहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	इटहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	भैसासुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	बेरमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	कन्हवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	इटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	लुढौती	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	हिनीता कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	खैरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			<b>तिलौरा</b>						
		00056	हरदासपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	बेल्दरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	धनवाही कला			सोयाबीन	-	-	-
		00060	तिलौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	नरौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00062	पहाडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	बंधीपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	अमिलिया कला			सोयाबीन	-	-	-
		00065	मगरोरा			सोयाबीन	-	-	-
		66	देवरा	धानसिंचित	-				
		00067	बरेठी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	भटगवां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	गोबरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	करतहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	करुआ	धानसिंचित	-				
		00073	भेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			<b>नादन</b>						
		00074	बठिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00075	चपना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	करौदी उपाध्याय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00077	जमताल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00078	कंचनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00079	दुबेही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00081	नादन शारदाप्रसाद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00082	बरहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00083	उमरी फिफरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00084	जुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00085	नादन शिवप्रसाद	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00086	बुंदेरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00087	जरियारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00088	करौदी काप नादन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00089	करइया देवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00090	हिनीता गजगौना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00091	तिन्दुहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00092	मडई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			<b>बदेरा</b>						
		00110	अजमाइन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00112	बिहरा कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	ककरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00114	बदेरा			धानअसिंचित	-	-	-
		00115	लटागांव			धानअसिंचित	-	-	-
			<b>भदनपुर 3090</b>						
		00097	रिवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-



	चोरहटा								
		00044	चकदही		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00045	गौहारी		धानअसिचित		-	-	-
		00046	इटमा नदीतीर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बिहरा नं0 2		धानअसिचित		-	-	-
		00048	कपवाह कोठार			सोयाबीन	-	-	-
		00051	चकेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00052	डुडहा			सोयाबीन	-	-	-
		00054	चोरहटा			सोयाबीन	-	-	-
		00060	कोनियाकाठार			सोयाबीन	-	-	-
		00062	खोखम		धानअसिचित		-	-	-
	रामपुर बधेलान								
		00004	जनार्दनपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00006	डेगरहट		धानअसिचित		-	-	-
		00015	बठिया		धानअसिचित		-	-	-
		00016	खारी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रामपुर बधेलान		धानअसिचित		-	-	-
		00022	खटखरी			सोयाबीन	-	-	-
		00002	मलगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
	सज्जनपुर								
		00025	नेमआ			सोयाबीन	-	-	-
		00026	गुडहरू		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पडखुरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00030	अतरहरा			सोयाबीन	-	-	-
		00031	रिछहरी			सोयाबीन	-	-	-
		00033	नरसिंहपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मनकहरी			सोयाबीन	-	-	-
		00037	सज्जनपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सिधौली			सोयाबीन	-	-	-
		00040	मरोहा			सोयाबीन	-	-	-
		00041	खगौरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सराय			सोयाबीन	-	-	-

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची**

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सतना										
मूल अधिसूचना क्र.189, दिनांक 23.4.16 में निम्नानुसार हल्कों के समक्ष फसलों को विलोपित किया जाता है।										
	<b>अमरपाटन</b>									
			00035	सुआ		धानअसिंचित		-	-	-
			00037	खरमसेडा		धानअसिंचित		-	-	-
			00041	मढी			सोयाबीन	-	-	-
			45	मीषमपुर		धानअसिंचित				
	<b>ताला</b>									
			61	आमिन		धानअसिंचित				
			65	कोतर		धानअसिंचित				
			69	भडरा		धानअसिंचित				
			72	रामगढ़		धानअसिंचित				
	<b>मोहारी कटरा</b>									
			00006	त्योधरी		धानअसिंचित		-	-	-
			00009	रुहिया			सोयाबीन	-	-	-
			00018	ककलपुर		धानअसिंचित		-	-	-
	<b>उचैहरा</b>									
	<b>उचैहरा</b>									
			00056	करही कला		धानअसिंचित		-	-	-
			00057	करही खुर्द		धानअसिंचित		-	-	-
			00059	पिपरी कला		धानअसिंचित		-	-	-
			00061	गोवरांव कला				तुअर	-	-
			00062	बंदरहा		-		तुअर	-	-
			00063	खुड़ा		-		तुअर	-	-
			00067	रमपुरवा		धानअसिंचित		-	-	-
			00068	इचौल				तुअर	-	-
			00069	रगला		-		तुअर	-	-
	<b>परसमनिया</b>									
			3	पिपरिया		धानअसिंचित				
			4	आलमपुर		धानअसिंचित				
			8	रामपुर पाठा		धानअसिंचित				
			10	देवगुना		धानअसिंचित				
			12	बिचवा		धानअसिंचित				
	<b>कोटार</b>									
	<b>कोटार</b>									
			00008	गौरइया				तुअर	-	-
	<b>छिबीरा</b>									
			00027	बकिया तिवरियान				तुअर	-	-
			00031	रामनगर				तुअर	-	-
			00033	बेला		धानसिंचित		तुअर	-	-
	<b>डाम्हा</b>									
			00029	रजरवारा			सोयाबीन	-	-	-
			00030	हिलौधा			सोयाबीन	-	-	-
			00032	नौबस्ता		धानअसिंचित		-	-	-
			00036	इटम्हा		-		तुअर	-	-
			00038	मोहारी		धानअसिंचित		-	-	-
	<b>नागीद</b>									
			00046	गंगवरिया		धानअसिंचित		तुअर	-	-
			00048	खखरीधा		धानअसिंचित		-	-	-
			00052	मझगवा		धानअसिंचित		-	-	-
			00053	सेमरवारा		धानअसिंचित		-	-	-

बिरसिहपुर	जैतवारा	00003	खुटहा	धानअसिचित					
		11	बम्होरी	धानअसिचित					
	धारकुण्डी (अमवा)	38	बदकन	धानअसिचित					
मझगवा	बरोधा	00015	अर्जुनपुर	धानअसिचित					
		00017	शाहपुर	धानअसिचित					
		00020	लालपुर	धानअसिचित					
		21	ब्रम्हीपुर	धानअसिचित					
		00022	पडरी	धानअसिचित					
मझगवा		42	कैलाशपुर	धानअसिचित					
		45	चितहरा	धानअसिचित					
मैहर	अमदरा	00001	झुकेही	धानअसिचित					
		00002	पलौहा	धानअसिचित					
		3	करोदिया	धानअसिचित					
		00005	सभागंज	धानअसिचित					
		00006	पथरहटा	धानअसिचित					
		00007	गुगडी	धानअसिचित					
		00008	पकरिया	धानअसिचित					
		10	धनेडीखुर्द	धानअसिचित					
		00011	पाला	धानअसिचित					
		12	रोहनिया, खुर्द	धानअसिचित					
		कसेडी		00020	रेगवां	धानअसिचित			
				00021	धुनवारा	धानअसिचित			
				00022	मतवारा	धानअसिचित			
00023	महेदर			धानअसिचित					
00024	गोरइया कला			धानअसिचित					
00025	कसेडी			धानअसिचित					
00026	भरौली			धानअसिचित					
00029	मैसासुर			धानअसिचित					
00031	बेरमा	धानअसिचित	सोयाबीन						
00034	लुढौली	धानअसिचित							
00035	हिनीता कला	धानअसिचित							
तिलौरा		58	मनटोलवा	धानअसिचित					
		00059	धनवाही कला	धानअसिचित					
		00060	तिलौरा	धानअसिचित					
		00064	अमिलिया कला	धानअसिचित					
		00065	मगरोरा	धानअसिचित					
		00066	देवरा	धानअसिचित					
		00067	बरेठी	धानअसिचित					
		00068	भटगवा	धानअसिचित					
		69	कांसा	धानअसिचित					
		00070	गोबरी	धानअसिचित					
00072	करुआ	धानअसिचित							
00073	भेडा	धानअसिचित							
नादन		00074	बठिया	धानअसिचित	सोयाबीन				
		00075	चपना	धानअसिचित					
		00076	करोदी उपाध्याय	धानअसिचित					

		00077	जमताल	धानअसिचित				
		00078	कंचनपुर	धानअसिचित				
		00079	दुबेही		सोयाबीन			
		80	रिगरा		सोयाबीन			
		00081	नादन शारदाप्रसाद	धानअसिचित	सोयाबीन			
		00083	उमरी फिफरी	धानअसिचित				
		00084	जूरा	धानअसिचित	सोयाबीन			
		00085	नादन शिवप्रसाद	धानअसिचित	सोयाबीन			
		00086	बुढेरुआ		सोयाबीन			
		00087	जरियारी	धानअसिचित	सोयाबीन			
		00088	करीदी काप नादन	धानअसिचित				
		00089	कनइया देवरी	धानअसिचित				
		00090	हिनीता गजगौना	धानअसिचित				
		00091	तिन्दुहटा	धानअसिचित				
		00092	मडई	धानअसिचित				
	<b>बदेरा</b>							
		111	सलइया	धानअसिचित				
		00112	बिहरा कला	धानअसिचित				
		00113	ककरा	धानअसिचित				
		118	आमातारा	धानअसिचित				
		119	कुडवा	धानअसिचित				
		120	मझगवां		तुअर			
		121	धनवाही	धानअसिचित				
	<b>भदनपुर 3090</b>							
		93	बराखुद	धानअसिचित	तुअर			
		96	सारंग	धानअसिचित				
		00097	रिवारा	धानअसिचित				
		00098	झाझबरी		तुअर			
		99	जुडवानी	धानअसिचित				
		106	देवरी		तुअर			
		107	सढेरा	धानअसिचित				
	<b>मैहर</b>							
		41	उदयपुर	धानअसिचित				
		00046	जीतनगर	धानअसिचित				
	<b>रघुराजनगर</b>							
	<b>कोठी</b>							
		00038	रायपुर	धानअसिचित				
		00039	बरहना	धानसिचित				
		00049	उदयसागर	धानअसिचित				
		51	कंचनपुर		सोयाबीन			
		00052	बम्हरीला	धानअसिचित				
		00054	नचरीरा	धानअसिचित				
	<b>रैगांव</b>							
		00001	खनगढ	धानसिचित				
		00003	भवर	धानअसिचित				
		00006	हडखार	धानअसिचित				
		00007	पडरीत	धानअसिचित				
		00008	मसनहा	धानअसिचित				
		00011	इटमा	धानअसिचित				
		00012	बांधी	धानअसिचित				
	<b>सतना</b>							
		80	सेजहटा		सोयाबीन			
		82	कृपालपुर		सोयाबीन			
		86	बठिया कोठार		सोयाबीन			
		87	बेला		सोयाबीन			
		88	मैना		सोयाबीन			
	<b>हाटी</b>							
		00056	जैतवारा 163	धानअसिचित				
		00057	हठिया	धानअसिचित				
		00062	कशियरा	धानअसिचित				
		00065	खम्हरिया	धानअसिचित				
		00067	डगडीहा	धानअसिचित				
		68	कोठरा		सोयाबीन			

रामनगर	ज़िल्ला									
		00041	छिरहाई	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर	-	-	-
		00042	जिगना	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00043	अरगट	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		00044	खोडरी	धानसिंचित		-	तुअर	-	-	-
		00045	जुडमानी	धानसिंचित		-	तुअर	-	-	-
		00046	हिनीती	धानसिंचित		-	तुअर	-	-	-
		47	मनकीसर	धानसिंचित	धानअसिंचित		तुअर			
		48	बेलहाई	धानसिंचित	धानअसिंचित					
		00049	भमरहा	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		00050	देवदहा	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		51	भर्यादापुर	धानसिंचित	धानअसिंचित					
		00052	जटदूठहाटोला	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		00053	झिन्ना	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		00054	सरिया	धानसिंचित		-	-	-	-	-
		56	पैपखरा	धानसिंचित	धानअसिंचित					
		57	मुर्तिहाई	धानसिंचित	धानअसिंचित					
		58	मझटोलवा	धानसिंचित	धानअसिंचित					
		59	बूड़ाबाडर	धानसिंचित	धानअसिंचित					
	<b>रामनगर</b>									
		00024	देवरा मोलहाई	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00025	सोहीला	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00026	सोनाडी			सोयाबीन	-	-	-	-
		27	गिधैला		धानअसिंचित					
		00028	करी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		29	गंगासागर		धानअसिंचित					
		30	गजास		धानअसिंचित					
		00031	भिटारी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		34	गुलवार गुजारा		धानअसिंचित	सोयाबीन				
		35	गोविंदपुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन				
		00036	नारायणपुर	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00038	नीगांव	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		39	सगीनीखुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन				
		40	जोबा		धानअसिंचित	सोयाबीन				
	<b>बडवार</b>									
		00001	बडा इटमा	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00002	खारा			सोयाबीन	-	-	-	-
		00003	सुलखमा			सोयाबीन	-	-	-	-
		5	कुदरीकला		धानअसिंचित	सोयाबीन				
		6	हरई		धानअसिंचित	सोयाबीन				
		00007	बाबूपुर	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00008	बडवार	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00009	टेगना			सोयाबीन	-	-	-	-
		00010	मनकहरी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00011	देवरी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00012	गोरसरी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00013	हरदुआ	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00014	चंदवार	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00015	भरतपुर			सोयाबीन	-	-	-	-
		00020	मसमारी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		22	गोरहाई	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
		00023	गैलहरी	धानसिंचित		सोयाबीन	-	-	-	-
	<b>रामपुर</b>									
	<b>चोरहटा</b>									
		00044	चकदही				तुअर	-	-	-
		00045	गोहारी				तुअर	-	-	-
		00046	इटमा नदीतीर				तुअर	-	-	-
		00047	बिहरा नं0 2				तुअर	-	-	-
		00053	खरवाही				तुअर	-	-	-
		00056	बीदा				तुअर	-	-	-
		00062	खोखम				तुअर	-	-	-